

अपने घर की रक्षा करें

घर की सुरक्षा

घर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ आप व आपका परिवार सुरक्षा व निश्चिंता का आनन्द ले सकें।

जुर्मकर्ता अक्सर ही अवसरवादी होते हैं और सामान चुराने के लिए ऐसे घरों को लक्ष्य बनाते हैं जहाँ सुरक्षा में कमी होती है।

आप अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सरल उपाय कर सकते हैं जिनसे चोरों द्वारा आपके घर में चोरी करने के खतरे में विशेष रूप से कमी हो जाएगी।

यहाँ कुछ सरल उपाय दिए जा रहे हैं जो हम सभी अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं।

अपने घर को सुरक्षित बनाएँ

- घर में उत्तम किस्म के सुरक्षा दरवाज़े, खिड़कियाँ, ताले, अलार्म, रोशनी के बल्ब व चेतावनी सूचक लगाएँ।
- सभी खिड़कियाँ व दरवाज़ों को सुरक्षित करें।
- अलार्म, धुएँ सूचक व सुरक्षा बिजलियों को चालू रखें।
- अपने फ़ाटक़ों, शैडों व गराजों में ताला लगा कर रखें।

अपने घर की जाँच करें

- सुनिश्चित करें कि आपके घर का नम्बर साफ़-साफ़ दिखाई दे।
- पेड़ों व झाड़ियों को काट-छाँट कर रखें जिससे आपके घर के आसपास सब ठीक से दिखे।
- सीढ़ी, औज़ार व बागबानी के उपकरणों को ताले में बंद करके रखें।
- अतिरिक्त चाबियों को घर के बाहर न रखें।
- मूल्यवान चीज़ों, हटाए जा सकने वाले उपकरणों या चाबियों (घर या वाहन की) साफ़ रखी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए।
- मूल्यवान चीज़ों पर निशान लगा कर रखें और उनका विवरण लिख कर रखें।

जब घर से कहीं गए हों तो

- नियत किए गए समय पर चलने वाले बल्ब या रेडियों स्थापित करें जिससे ऐसा लगे कि कोई घर पर है।
- किसी परिवार के सदस्य, विश्वसनीय मित्र या पड़ोसी से कहें कि वह घर पर नज़र रखे। उनको अपनी यात्रा के कार्यक्रम के बारे में बताएँ, अपने ड्राइव-वे में कार खड़ी रखें, कूड़े के डब्बों व चिट्ठियों को हटाते रहें।
- चिट्ठियों, अखबारों व आने वाले अन्य सामान को रीडाप्ट करवाने के बारे में विचार करें।
- अपनी यात्रा के कार्यक्रम के बारे में इन्टरनेट पर सामाजिक मीडिया को सूचित न करें।

अपने घर को सुरक्षित रखने के बारे में अधिक जानकारी के लिए,
कृपया हमारे [अपराध से बचाव पृष्ठ](#) में [घर की सुरक्षा संबंधी ब्रोशर](#) देखें।

जुर्म से बचाव संबंधी अधिक जानकारी के लिए देखें www.police.nsw.gov.au



Justice



अपातकालीन या जान-तेवा स्थितियों के लिए।



गैर-आपातकालीन स्थितियों के लिए।



अपराध संबंधी जानकारी देने के लिए। यह जानकारी बिना नाम बताए दी जा सकती है।